

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 363]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर 2018 — भाद्रपद 29, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 19 सितम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-1/2012/1/3. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,

नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“13. अवकाश की पात्रता. — (1) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवोन्मुक्त होने पर, आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए आनुपातिक आधार पर की जायेगी।

स्पष्टीकरण — गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जायेगा तथा विश्रामावकाश विभागों के लिये कैलेंडर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जायेगा।

(2) संविदा पर नियोजित महिला कर्मचारियों को 180 दिवस अथवा संविदा की कालावधि की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रसूति अवकाश (संवैतनिक) अनुज्ञेय होगा। यह अवकाश दो जीवित संतान के उपरांत हुए प्रसव पर अनुज्ञेय नहीं होगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा शर्मा, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 19 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ 9-1/2012/1/3. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-1/2012/1/3 दिनांक 19-09-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा शर्मा, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 19th September 2018

NOTIFICATION

No. F 9-1/2012 /1-3. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Sewa (Samvida Niyukti) Niyam, 2012, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,

For rule 13, the following shall be substituted, namely :-

- "13. Eligibility for leave.- (1) Employee appointed on contract shall be entitled for 18 days casual leave and 3 days optional leave in each calendar year, and in the case of appointment in the middle of the year, or on discharge of his service, calculation of eligibility for casual leave shall be made on proportional basis for full completed months.

Explanation - Incomplete day shall be adjusted/rounded off with the next full day for computation and for Vacation Department calendar year means actual service of 12 months.

- (2) Maternity leave (with Salary) to the female employees, employed on contract, shall be admissible up to 180 days or the expiry of period of contract whichever is earlier. This leave shall not be admissible for the delivery after two living issues."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RICHA SHARMA, Principal Secretary.